



छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय

प्रेस विज्ञापि

कल्याणपुर, कानपूर

उत्तर प्रदेश-208024

दिनांक: 26-11-2021

आज दिनांक 29-11-21 को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर की 17 यूपी गर्ल्स बटालियन तथा विश्वविद्यालय स्थित मिशन शक्ति ने साथ मिलकर 73वें एन.सी.सी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दीनदयाल शोध संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक द्वारा की गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आई.एम.ए प्रेसिडेंट डॉ बृजेंद्र शुक्ला, अर्पणा कटियार, मिशन शक्ति नोडल ऑफिसर डॉ रश्मि गोरे द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। एनसीसी इंचार्ज अर्पणा कटियार ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों और छात्र छात्राओं का स्वागत किया।

डॉ बृजेश शुक्ला ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए देश सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किसी न किसी माध्यम से देते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस और डॉक्टरों की समाज में सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की बात कही। इसके साथ उन्होंने वहां उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को हेल्थ टिप्स दिए और निवेदिता मिश्रा, नेहा यादव तथा अन्य उपस्थित छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गए स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

पत्रकारिता विभाग के एचओडी डॉ जितेंद्र डबराल ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समाज के अंदर एक अनुशासित ढंग में रहने की सीख दी।

एन.सी.सी छात्रा निवेदिता मिश्रा ने एन.सी.सी स्थापना दिवस पर भाषण दिया, दिव्या यादव ने अपनी कविता के माध्यम से सभी में जोश भर दिया। शुभी यादव द्वारा सरस्वती वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया गया।

डॉ. रश्मि गोरे ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए नारी शक्ति को शक्तिवान बने रहने और सदैव अपने कर्तव्यों और दायित्वों के लिए निष्ठावान बनने रहने की सलाह दी।

कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर बृजेश शुक्ला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में सहायक मीडिया प्रभारी डॉ. विवेक सचान, डॉ रश्मि गौतम, प्रतिभा कुशवाहा, आदि लोग मौजूद रहे।